



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1981/माघ 30, 1902

No. 72]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1981/MAGHA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1981

कां०सां० 115(अ)—केन्द्रिय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के भूपूर्व औद्योगिक विकास विभाग (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० कां०सां० 93(अ)/उ०वि०अ०/29 व/73/1 तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित और सशर्त करना, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची I—14 के अन्तर्गत आश्रित वस्तुओं की सूची में,—

- (i) क्रम सं० 147 के सामने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तम्भों के अन्तर्गत और प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

“30391201 पी०वी०सी० पाइप, जिनके अन्तर्गत 110 मि०मी० डी०आई०ए० तक की नलिकाएँ भी हों”,

- (ii) क्रम संख्या 147 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित का सञ्चार और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“147क 30393501 पी०वी०सी० पाइपों के लिए फिटिंगे— जिनके अन्तर्गत 110 मि०मी० डी०आई०ए० की नलिकाएँ भी हों”;

- (iii) क्रम संख्या 210 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित का सञ्चार और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“210क 31921301 ताल, काम, आसैनिक, जैरिक योधिकों पर आधारित जनविनय काष्ठ परिरक्षक”,

- (iv) क्रम संख्या 243 के अन्तर्गत, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तम्भों के अन्तर्गत और प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

3131202 फ्यूमैरिक प्रमल (फ्यूमैरिक एनहाइड्राइड सयल की छोड़ी गई मैमा से प्राप्त फ्यूमैरिक अम्ल को छोड़कर)”,

- (v) क्रम संख्या 292 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लागू किया जाएगा।

- (vi) क्रम संख्यांक 327 के मामले, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तम्भों के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2010101 प्रचिनसह मिट्टी ईंटें तथा ब्लाक जिगमें 40 प्रतिशत से कम अनुमिता हों”,

- (vii) क्रम संख्यांक 491 के मामले, तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“100 मैश साइज से स्पून्तर और 2 मीटर चौड़ाई तक के धात्विक वायर गेज तथा तार आली”;

- (viii) क्रम संख्यांक 560 के मामले, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“36340302 टार्च बल्ब को पूर्व-फोकस किए गए प्रकार से भिन्न हों”,

- (ix) क्रम संख्यांक 637 के मामले, क्रमशः दूसरे और तीसरे स्तम्भ के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“37474902 आटोमोबाइल रेडिएटर (एलुमिनियम रेडिएटरों को छोड़कर)”;

2. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिश्चित करती है, जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का कारखाना जिसे उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से पहले छूट प्राप्त थी और जिसे इस अधिसूचना के आधार पर छूट नहीं दी गई है, कोई स्वामी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए और राज्य सरकार की वशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए नहीं चलाएगा।

[फाइल सं० 12/211/79-एल०पी०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1981

S.O. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B 73/1, dated the 16th February, 1973 namely :—

In the said notification, in Schedule I—List of Reserved items for Small Scale Sector,—

- (i) against serial No. 147, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the

following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“30391201 PVC pipes including conduits upto 110mm DIA”;

- (ii) after Serial No. 147, and entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be inserted, namely :—

“147A 30393501 Fittings for PVC pipes including conduits upto 110 mm DIA”.

- (iii) after Serial No. 210 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“210A 31922301 Water Soluble Wood preservative based on copper, chrome, arsenic boris compound”;

- (iv) against Serial No. 243, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“3131202 Fumaric acid (excluding fumaric acid recovered from the off gases of phthalic anhydride plant”;

- (v) Serial No. 292 and the entries relating thereto shall be omitted.

- (vi) against Serial No. 327, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“32010101 Fire Clay Bricks and Blocks containing less than 40 per cent alumina”.

- (vii) against Serial No. 491, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

“Wire Gauze and wire netting (Metallic Coarser than 100 mesh size and upto 2 meter width);

- (viii) against Serial No. 560, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“36340302 Torch bulbs other than pre-focussed type”;

- (ix) against Serial No. 637, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely :—

“37474902 Automobile radiators (excluding aluminium radiators)”;

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies a period of six month from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking, which was previously exempted from the operation of the provisions of the said Act and which is not so exempt by virtue to this notification, shall carry on the business of such undertakings, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Government, except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[File No. 12/211/79-LP]

B. ROY, Jt. Secy.